

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020 — माघ 3, शक 1941

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005. — यतः छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 116/6067/2019/1-8, दिनांक 09 जनवरी, 2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2008 के सुगम एवं सुचारू संचालन के प्रयोजन के लिये, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय घोषित किया गया है.

अतएव, उपरोक्त आदेश के तारतम्य में, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-09-2011 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी पदाभिहित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

Atal Nagar, the 16th January 2020

NOTIFICATION

No. F-4-325/Home-C/2005. — Whereas, by vide Departmental Order No. 116/6067/2019/1-8, dated 09 January, 2020 of General Administration Department of the Government of Chhattisgarh, Additional Director General of Police, Intelligence, Police Headquarters, Nava Raipur Atal Nagar has been declared as Special Duty Officer, Home Department Mantralaya for the purpose of smooth and proper functioning of Chhattisgarh State Private Security of the Agency (Regulation) Rules, 2008.

Now therefore, as per the above order, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Private Security Agency (Regulation) Act, 2005 (No. 29 of 2005) and in supersession of departmental vide Notification dated 02-09-2011, the State Government, hereby, designates Additional Director General of Police, Intelligence, Police Headquarters, Nava Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh and Special Duty Officer, Home Department, Mantralaya as Controlling Authority for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SUBRAT SAHOO, Additional Chief Secretary.